

**14<sup>th</sup> International Exhibition and Conference on Minerals, Metals, Metallurgy & Materials**

**27 - 29 SEPTEMBER 2024**

**YASHOBHOOMI, DWARKA, NEW DELHI**

Co-located Shows



**India's Largest Exhibitions on Hand Tools, Power Tools, Hardware, Fasteners, Cutting, Welding & Laser Technology**

GOLD PARTNER

ASSOCIATE PARTNER

PARTNER AIRLINES



**Post Show Report**



**Shri. Bhupathiraju Srinivasa Varma**

Minister of State,  
Ministry of Steel, Government of India

I am happy to know that the Delhi Chapter of The Indian Institute of Metals (IIM) is organizing Minerals, Metals, Metallurgy & Materials (MMMM 2024) International Conference and Exhibition on the theme of Process & Product Innovations in Metal Production at New Delhi during 27-29 September 2024.

The current focus in metal production is on replacing traditional production methods with cleaner alternatives powered by renewal energy, including green hydrogen, green energy, carbon capture, storage and utilization etc., enabling shift towards 'green' production, i.e. achieving a net zero carbon footprint and digitalization. I Hope the international conference and exhibition shall help the domestic industries, in addressing these key industry challenges. MMMM 2024 should also provide growth and technology up-gradation path to help mineral and metal sectors to fulfil the emerging needs of low CO<sub>2</sub>, and green technologies and to support developments in renewable power, EVs and other emerging technological sectors.

The challenges we face are global and effective collaboration between industry, designers, technology and equipment suppliers, academia and government is paramount to success. I hope that the MMMM 2024 will also provide a platform for strengthening such a collaboration and facilitate adopting new technology with low GHG emission and high resource efficiency.

I wish MMMM 2024 all success.





**Shri. H D Kumaraswamy**  
Minister of Heavy Industrial and Steel,  
Government Of India

It gives me a great pleasure to learn that The Indian Institute of Metals - Delhi Chapter, is organizing MMMM 2024 Conference and Exhibition during 27-29 September 2024 at Delhi.

Revolutionary changes have been brought in mineral and metal domain in the last few years. Indian steel industry is brilliant example of transformation and turnaround with the joint efforts of government and industry, as it has come a long way by becoming 2nd largest steel producer in the world.

The global requirement of minerals and metals is growing. There is a great concern about future availability of these valuable resources. The theme of the International Conference, viz. Process and Product Innovations in Metal Production is very topical and relevant in this context. I hope deliberations will be held on what innovations are being done in metallurgical and allied sectors to make metal production as resource efficient as possible, and ensuring a rapid and global deployment of breakthrough technologies that can make metal production considerably greener and sustainable than what is at present.

I wish the Conference and Exhibition all success.



**Shri. Sandeep Poundrik, IAS**  
Secretary, Ministry of Steel  
Government Of India

I am very happy to note that the Delhi Chapter of The Indian Institute of Metals (IIM) is organizing an International Conference on Process & Product Innovations in Metal Production, along with an International Technical Exhibition on Minerals, Metals, Metallurgy and Materials (MMMM 2024) at Yashobhoomi (IICC), Dwarka, New Delhi during 27-29 September, 2024.

Mineral and metal sectors are important in national economy as they determine the efficiency and growth of multiple downstream manufacturing industries and infrastructure. Indian metal sector has been growing over the years and more growth is expected in coming years. Besides adding new capacity, the industry has also been continuously updating and upgrading older plants to higher efficiency levels.

Innovation in metal production, processing and metallurgy is a key element to compete in today's global market. The continuous diffusion of process and product innovations has been crucial for maintaining healthy growth. Government is committed to supporting and nurturing innovative talent, providing them with the necessary tools, resources, and platforms to showcase their innovations. Government of India has set an ambitious target of installing 300 million tonnes of crude steel

making capacity by 2030 and simultaneously reducing greenhouse gas generation by half by 2030. I am confident that deliberations in MMMM 2024 shall help to meet these targets.

I wish the event a grand success.



**Shri. Sajjan Jindal**  
President - IIM,  
Chairman - JSW Group,  
The Indian Institute of Metals

I am glad to know that the JIM Delhi Chapter is organizing MMMM 2024, the International Conference and Exhibition, with the theme Process & Product Innovations in Metal Production during 27-29 September 2024 at Yashobhoomi, Dwarka, New Delhi.

Producing metals and alloys using innovative processes which use less energy and emit significantly less carbon dioxide at reduced cost is an aspiration of the manufacturing sector. I hope that MMMM 2024 will facilitate adopting innovative technology with low GHG emission and high resource efficiency. I also hope that during MMMM 2024, brightest minds in metal sector will converge, connect, and collaborate, sparking ideas that will reshape the metal production in coming years.

I wish MMMM 2024 a grand success.





**Prof. B S Murty**  
Director  
Indian Institute of  
Technology Hyderabad

I am delighted to know that IIM Delhi Chapter is organizing MMMM 2024, the International Conference and Exhibition, with the theme Process & Product Innovations in Metal Production during 27-27 September 2024 at Yashobhoomi (IICC), Dwaraka, New Delhi. In metal Production top priority is being sustainable. Metallurgy for each metal is different. There is no one-size-fits-all approach, but there is a large opportunity to generate more value by moving from incremental improvements to an overall transformation shift. One of the main drivers towards that shift is certainly through collaborations and partnerships between different technological disciplines, and also between industry, R&D labs, academia and plant and equipment designers. It is also beneficial to share knowledge across the industries

to integrate new technical developments into operations and generate higher value. IIT Hyderabad will be glad to collaborate with the industries visiting MMMM 2024 towards Viksit Bharat.

I wish a grand success in this endeavour

---



**Shri. Narinder Bhamra**  
President  
Fastener Manufacturers  
Association of India (Regd.),  
Ludhiana

I am happy to know that Hyve India in support with World Metal Forum (WMF) is HTF & CWE 2024, India's Largest Exhibitions on Hand Tools, Power Tools, Hardware, Fasteners, Cutting, Welding & Laser Technology, scheduled during 27-29 September 2024, at Yashobhoomi, Dwaraka, New Delhi.

I hope that such events will open new horizons for product showcasing and business interactions and address the needs of the Fastener, Tools & manufacturing industries.

I am sure that the participants attending this event will draw the maximum advantage from this opportunity.

On behalf of the Fastener Manufacturers Association of India, I extend my best wishes for the success of the event

---



**Dr. G. Satheesh Reddy**  
President  
The Aeronautical Society  
of India (AeSI)

I am glad to know that Hyve India in association with IIM-DC and active support of multiple Ministries and World Metal Forum (WMF) is organizing MMMM 2024, 14th International Exhibition, Conference, Open Seminar and Business Meets on Minerals, Metals, Metallurgy & Materials during September 27- 29, 2024, at Yashobhoomi, Dwaraka, New Delhi.

It is a good concept to organize such collocated events as a Business Carnival for Metal, Machinery, Manufacturing & Maintenance Industries. These sectors have emerged as diversified and specialized industry that produces numerous types of equipment's, instruments etc that comes

in various utilities. Such collaborative mechanisms play a great role in making the country Atmanirbhar. It is a matter of great pride that the Souvenir cum Show Catalogue will be brought out during the event containing articles on the industry, capabilities and profiles of the participants. I hope this leading Trade Event will provide an ideal business networking platform for the industry professionals and will go a long way to serve the need of the Indian Metals, Machinery and allied industries. I am sure that exhibitors and trade visitors to the event will draw the maximum advantage from the opportunity. I wish great success to all Exhibitors, Delegates and Organizers Date: 19th September 2024





**Shri. Prabhakar Rao**  
President  
Indian Sugar & Bio-energy  
Manufacturers Association

It is with great enthusiasm that we extend our warmest wishes for the success of the Grand Business Carnival of Metal, Machinery, Manufacturing, and Maintenance Industries. This prestigious event not only highlights the innovation, expertise, and collaboration that drive industries forward but also serves as a testament to the dedication and passion of all those involved. May this carnival be a fruitful opportunity for forging new partnerships, showcasing groundbreaking technologies, and fostering growth. Here's to a future of continued success and progress for all participants.

---



**Shri. Rituraj Bos**  
Secretary General  
The Indian Institute  
of Welding

It gives me immense pleasure to know that Hyve India in support with World Metal Forum (WMF) is organizing HTF - CWE 2024, India's Largest Exhibition on Hand tools, Power tools, Hardware, Fasteners, Cutting, Welding and Laser Technology, scheduled during 27-29 September 2024, at Yashobhoomi, Dwarka, New Delhi.

I hope that such event will open new horizon for product showcasing and business interactions, addressing the needs of the Fastener, Tools, Manufacturing and Welding industries, also will create the right business climate for the growth across every level and prove to be a business platform to link metal units in the industry. The Indian Institute of Welding (IIW-India), a Premier Professional Institute in India for the advancement of Welding Science and Technology, is continuously supporting significant exhibitions like these where Indian industries will be benefitted, as we believe that there is contribution of a little bit of welding in our everyday life. I am sure that the participants attending this event will draw the maximum advantage from this opportunity along with knowledge enhancement of advanced technologies.

On behalf of IIW-India, I extend my best wishes to all the participants, delegates, and organizers for the success of this event.

---



**Shri. R K Sharma**  
Secretary General  
Federation of Indian  
Mineral Industries

I am glad to know that Hyve India in association with IIM-DC and active support of various Ministries and World Metal Forum (WMF) is organizing MMMM 2024, 14th International Exhibition, Conference, Open Seminar and Business Meets on Minerals, Metals, Metallurgy & Materials during September 27-29, 2024, at Yashobhoomi, Dwarka, New Delhi.

It seems to be a nice concept of organizing such collocated events as a Business Carnival for Metal, Machinery, Manufacturing & Maintenance Industries. These sectors have emerged as a diversified and specialized industry that produces numerous types of instruments that comes in various use. I am so happy to note that this Souvenir cum Show Catalogue will be brought out during the event containing articles on the industry, and profiles of the participants. I hope this leading Trade Event will provide an ideal business networking platform for the

industry professionals and all will go a long way to serve the need of the Indian Metals, Machinery and allied industries. I am sure that exhibitors and trade visitors to this event will draw the maximum advantage from this opportunity.

I wish grand success to MMMM 2024.





**Dr. Komal Kapoor**

Chief Executive, NFC & Vice  
President (Non-Ferrous), IIM,  
Department of Atomic Energy

It gives me immense pleasure to learn that the IIM Delhi Chapter is organizing International Conference and Exhibition on Minerals, Metals, Metallurgy & Materials (MMMM-2024) with the Theme Process & Product Innovations in Metal Production. MMMM has established itself as a prestigious international event and is awaited excitedly by mining and metallurgical community in the Country.

Though there are lot of achievements and developments in Indian Mineral and Metal Domain, challenges never end. Industry has to find new economic solutions for reducing GHG emission and continuously make innovative efforts to adopt more resource efficient concepts, technologies and systems.

I hope the Conference will provide a comprehensive overview of technological trends and intelligent solutions for the emerging challenges and help to form meaningful business partnership among technology suppliers, equipment manufacturers, design and consultancy organizations and mineral and metal producers for green and efficient technology development and adoption. I wish the Conference a huge

I wish the Conference a huge success and congratulate the IIM Delhi Chapter for organizing this important event.



**Shri. Amarendu Prakash**

Chairman,  
Steel Authority of India Limited

I am pleased to learn that the Delhi Chapter of The Indian Institute of Metals is organizing an International Conference and Exhibition on Minerals, Metals, Metallurgy and Materials (MMMM 2024) at Yashobhoomi, New Delhi during 27-29 September 2024.

Process and Product Innovation s in Metal production is a marathon, not a sprint. The various stages involved in the metal and alloy production processes are complex and energy-hungry. Each stage in uences the quality and cost of the final product, and is monitored individually. Focus is also on reducing the capital and operating costs of our installations.

I sure the deliberations in the International Conference and presentation of state-of-the-art technology and equipment by globally reputed organizations in the exhibition shh provide valuable inputs to business environment in the country.

I wish MMMM 2024 a grand success



**Dr. Surendra Singh**

Technical Advisor  
Agricultural Machinery  
Manufacturers Association  
(AMMA- India)


I am happy to know that Hyve India in support with World Metal Forum (WMF) is organizing HTF & CWE 2024, India's Largest Exhibitions on Hand Tools, Power Tools, Hardware, Fasteners, Cutting, Welding & Laser Technology, scheduled during 27-29 September 2024, at Yashobhoomi, Dwarka, New Delhi.

I hope that such events will open new horizons for product showcasing and business interactions and address the needs of the Fastener, Tools & manufacturing industries and users. I am sure that the participants attending this event will draw the maximum advantage from this opportunity.

On behalf of Agricultural Machinery Manufacturers Association (AMMA-India), I extend my best wishes for the success of the event.



# The Organizer of



SUPPORTED BY



इस्पात मंत्रालय  
MINISTRY OF  
STEEL



इस्पाती इरादा



वाणिज्य एवं  
उद्योग मंत्रालय  
MINISTRY OF  
COMMERCE  
AND INDUSTRY



कोयला मंत्रालय  
Ministry of Coal



MINISTRY OF  
ELECTRONICS &  
INFORMATION TECHNOLOGY  
GOVERNMENT OF INDIA



## 14<sup>th</sup> International Exhibition and Conference on Minerals, Metals, Metallurgy & Materials

Co-located Shows



India's Largest Exhibitions on Hand Tools, Power Tools, Hardware, Fasteners, Cutting, Welding & Laser Technology

*Wish to Thanks*

Industry for their Support



### WMF - THE FOUNDER GROUP TRADE BODIES



Associated Chambers of Commerce  
and Industry of Uttar Pradesh



Aluminium Extruders'  
Council (ALEX)



All India Induction  
Furnaces Association (AIIFA)



Indian Chamber of Commerce  
for Affirmative Action



Federation of Karnataka Chambers  
of Commerce & Industry (FKCCI)



Gujarat Chamber of  
Commerce and Industry (GCCCI)



Federation of  
Hong Kong Industries



The Uttal Chamber of Commerce  
& Industry Ltd (UCCIL)



Tool & Gauge Manufacturers  
Association of India (TAGMA)



India Electronics &  
Semiconductor Association (IESA)



The Federation of Telangana Chambers  
of Commerce and Industry - FTCCI



The Clothing Manufacturers  
Association of India (CMAI)



Cold Rolled Steel Manufacturers  
Association (CORSMA)



The Federation of Telangana and Andhra Pradesh  
Chambers of Commerce & Industry (FTAPCCI)



Indian Industries  
Association



Tamil Nadu Stainless Steel  
Mfrs. & Merchants Association



Indo-Italian Chamber  
of Commerce & Industry



All India Steel Processors  
Association (AISRA)



Fastener Manufacturers  
Association of India



Telangana Chambers of  
Commerce and Industry (TECCI)



European Federation for  
Welding, Joining and Cutting (EFW)

### MEDIA FOR THEIR SUPPORT





The **global steel market** is projected to cross over **USD 1.43 Trillion** by the end of 2030.

India is the world's second-largest producer of crude steel and has produced **120 million** tonne (MT) of crude steel during financial year ended March 31, 2022, the output was about **18 per cent** higher compared to the country's production in the preceding fiscal year which was **102 MT steel** in 2021.

The growth in the Indian steel sector has been driven by the domestic availability of raw materials such as iron ore and cost-effective labour. Consequently, the steel sector has been a major contributor to India's manufacturing output.

India's finished steel consumption is anticipated to increase to **230 MT** by 2030-31 from **133.596 MT** in FY22.

Government of India is aiming to scale the Steel production upto **300 Million** Tons and increase the per capita steel consumption upto **160 kgs** by 2030-31 as per National Steel Policy. The liberalization of industrial policy and other initiatives taken by the Government have given a definite impetus for entry, participation and growth of the private sector in the steel industry.

Indian Steel Industry is witnessing consolidation of players which will presents an opportunity for global players to enter the Indian Market, while the existing units are being modernized/expanded, a large number of new steel plants have also come up in different parts of the country based on modern, cost effective, state-of-the-art technologies

Huge scope for growth is offered by India's comparatively low per capita steel consumption and the expected rise in consumption due to increased infrastructure construction and the thriving automobile and railways sectors.

Under the Union Budget 2022-23, the government allocated **Rs. 47 crore (US\$ 6.2 million)** to the Ministry of Steel.





MMMM is, by far, the largest and the most prestigious event on Minerals, Metals, Metallurgy & Materials with presence of a large number of leading companies of Mining, Minerals, Metals, Metallurgy, Materials and allied industries. The event has always received worldwide appreciation from all over the industry and proved to be the best international business platform in India. The event is being organized in association with IIM-DC and active support of World Metal Forum (WMF)

**MMMM 2024 was Supported by the Ministries of Steel, Coal, Electronic & Information Technology, Commerce & Industry, Government of India.**

#### Few Highlights of the event

- Open Seminar On **“Green Steel Production: Sustainable Practices and Carbon Reduction”** by Metalogic
- International Conference On **“Process & Product Innovations in Metal Production”** by IIM-DC
- Business Meets on **“Latest Technology for Manufacturing & Maintenance Industries”** by WMF



**The event was inaugurated by Shri. Bhupathiraju Srinivasa Varma Hon'ble Minister of State, Ministry of Steel, Government of India in the presence of other Government officials, Trade Bodies and eminent leaders from Metal, Manufacturing and allied Industry.**

## Exhibitor Profile

### Metal Manufacturer and Suppliers

- Aluminium
- Copper
- Pipes and Tubes
- Steel and Steel Structures
- Stainless Steel
- Zinc
- Wire
- Lead

### Minerals

- Mineral Developments Corporations
- Minerals Exploration Technology
- State Governments
- Handling & Processing
- Transportation and Logistics

### Machinery & Technology for Mineral Mining & Processing

- Communication System & Technology
- Conveyor Belting & Components
- Drilling and Crushing
- Earth Moving Equipment and accessories
- Environment & Geology and Mining Related Services
- Fans and Dust Collectors
- Locomotives, Lubricants & Greases
- Mines Safety Equipment
- Process Control Systems
- Rock Drilling Equipment

### Metallurgical Equipment's & Technology

- Foundry Machinery & Technology
- Welding Equipment & Technology
- Rolling Mill equipments

### Machinery & Technology for Steel & Metal Manufacturing

- Automation & Instrumentations
- Energy Conservation
- Engineering and Design
- Environment protection
- Filtration & Separation
- Induction Furnace and Heat Treatment
- Nano-Technologies
- Palletisation

- Project Management & Consultation
- Pumps & Valves
- Quality control
- Refractories
- Safety Equipment & Technology
- Scientific Research & Development
- Scrap Collecting and Recycling
- Sheet metal, tube, section (ferrous and nonferrous)
- Sintering
- Smelting and Refining
- Software technology

### Metal Working Machinery & Technology

- Bearing & Shafts
- Cutting, Shaping, Bending & Welding
- Extrusion
- Finished products, components, assemblies
- Flexible sheet metal working
- Forging, Casting equipment and accessories
- Forming
- Foundry Engineering
- Furnace and Heat Treatment
- Gears, Motors & Compressors
- Joining, fastening
- Lapping
- Laser Cladding
- Lubricants
- Machine Tools and Dies
- Polishing
- Spray Painting Systems
- Surface Treatment & Corrosion Technology
- Tube / Section processing
- Vibrator De-burring Machines & Consumables

### Material Handling Solutions

- Cranes & Lifting Equipment
- Hoists & Aerial Work Platform
- Industrial Trucks, Forklifts & Accessories
- Innovative Logistics Solutions
- Loading & Unloading Equipment
- Robotic Systems & Automation
- Warehouse Technology & Systems



## Visitor Profile

### Buying and Sourcing Mineral Processing

- Mineral Development Corporation
- Mineral Processing Units
- Public Sector Enterprises
- MSME and Private companies
- State Government Departments & agencies
- Contractors
- Scientific Research & Development Institutions

### Steel and Metal Manufacturers

- Metal producing companies
- Alloy manufacturers
- Material testing agencies
- Ferrous and Non-ferrous metal production plants and units
- Foundry Engineering Units

### Buying and Sourcing of Metal & Metal Working Machinery:

- Aerospace & Defense
- Automobile Industry
- Casting, Forgings and Foundry
- Component Manufacturers
- Consulting Service providers
- Electrical & Electronics Industry
- EPC Companies
- Fabricators
- Iron and Steel Production
- Non-Ferrous Metals Production
- OEMs
- Power Transmission and Distribution
- Railways
- Rolling Mills
- Sheet Metal Fabricators
- Sheet Metal Products, Components Manufacturers
- Shipbuilding and Ship Repair Industry
- Steel & Aluminum Construction
- Tube and Pipe Sector
- Water Supplier Sector




# THE INAUGURATION

## Shri Bhupathiraju Srinivasa Varma

Hon'ble minister of State, Ministry of Steel, Government of India formally inaugurated the event in presence of other leaders of steel & allied Industries.





**18,000** Sqm  
GROSS EXHIBITING AREA



**253**  
EXHIBITING COMPANIES



**10**  
EXHIBITING COUNTRIES  
Canada, China, Hong Kong, India,  
Italy, Korea, Portugal, South Africa,  
Taiwan, Turkey



**9,017**  
UNIQUE VISITORS



**300+**  
DELEGATES



**SUPPORT FROM**  
MAJOR TRADE ASSOCIATIONS  
AND WORLD METAL FORUM



BUSINESS MEETS ON  
***"Latest Technology for Manufacturing  
& Maintenance Industries"***  
by WMF



INTERNATIONAL CONFERENCE ON  
***"Process & Product Innovations  
in Metal Production"***  
by IIM- Delhi Chapter



INTERNATIONAL OPEN SEMINAR ON  
***"Green Steel Production: Sustainable  
Practices and Carbon Reduction"***  
by Metalogic



International Conference on  
***“Process & Product Innovations in Metal Production”***  
 by IIM- Delhi Chapter

**Day 1** September 27, 2024

**Technical Session 1**

**Product Development & Applications**

- Dr. Monojit Dutta, Tata Steel, (Invited Paper)
- Mr A. Chatterjee, RDCIS, SAIL, Ranchi
- Mr Immanuel Raju Kola, JNARDDC, Nagpur
- Dr. Pradyut Sengupta, IMMT, Bhubaneswar
- Dr. Ashwani Kumar, IIT Delhi

**Technical Session 2:**

**Process Innovations in Steel & Metal Sector**

- Dr. Dayanand Paswan, CSIR-NML, Jamshedpur
- Mr Viswanath Ammu, JNARDDC, Nagpur
- Mr Kumar Abhishek, RDCIS, SAIL, Ranchi
- Dr. M Manikandan, Vellore Institute of Technology, Vellore
- Mr Chandan Kumar, RDCIS Bokaro Centre, SAIL



**Day 2** September 28, 2024

**Technical Session 3**

**Decarbonisation of the Metal Sector**

- Dr. Joachim Scheele, Linde Plc, (Invited Paper)
- Dr. Shilpi Kapur, EMC, (Invited Paper)
- Mr. B. K. Das, RDCIS, SAIL, Ranchi
- Mr. Jaydeep B Jadhav, EMD, SAIL, Kolkata
- Mr. Gaurav Verma, M N Dastur & Co
- Mr. N. P. Srivastava, Bokaro Steel Plant, SAIL
- Mr. Nirmalya Deb, BigMint, Raipur

**Panel Discussion II**

Decarbonisation of the Metal Sector and Strengthening R&D Ecosystem

**Technical Session 4**

- New Technologies
- Mr. Manoranjan Ram, Danieli India Ltd, (Invited Paper)
- Mr. Praveen Chaturvedi, Tenova Technologies Pvt. Ltd. (Invited Paper)
- Mr. Navneet Singh, Yogiji Digi, Faridabad (Invited Paper)
- Prof. S B Singh, IIT Kharagpur (Invited Paper)
- Mr. Santanu Saha, MIDHANI

**1600 – 1730 Hrs: Technical Session 5  
 Recovery, Recycling & Waste Management**

- Dr. Bhupinder Singh, IARI, Pusa, (Invited paper)
- Mr. Mohinder Singhania, Attero Recycling Pvt. Ltd., Noida
- Mr. Alok Kumar Mathur, Bhilai Steel Plant, SAIL
- Ms. Alopi Banerjee, Durgapur Steel Plant, SAIL
- Ms. Shaila Mir, IIT Roorkee

**Day 3** September 27, 2024

**Technical Session 6**

**Raw Material Beneficiation & Advanced Refractory Material**

- Mr. Pitamber Adhikari, Calderys India Refractories Pvt. Ltd
- Mr. J N Panda, IMMT, Bhubaneswar
- Mr. Rahul Kumar, Calderys India Refractories Pvt. Ltd.

**Technical Session 7**

**Digitalisation and Smart Technologies**

- Mr. Manoj Arora, KJSS COSMOS
- Dr. Sanjay K Prasad, Global Energy & Resource Industry
- Dr. S B Saraswat, Global Institute of E-Commerce
- Mr. Vikas Agnihotri, Consultant, SAP

**Valedictory Session**



# International Open Seminar on **“Green Steel Production: Sustainable Practices and Carbon Reduction”** by Metalogic

**Day 1** September 27, 2024

## Conference Opening:

- Ms. Monica Bachchan Duvvuri, Founder & CEO, Metalogic PMS

## Theme setting:

- Ms. Neha Verma, IFS, Director Ministry of Steel, GOI

## Key Note Address by Special Invitee:

- Sh. Nagendra Nath Sinha, Former Secretary, Ministry of Steel

## Special invitees Industry note:

- Mr. RK Goyal, Managing Director, Kalyani Steels
- Mr. VR Sharma, Vice Chairman, Advisory Group, JSP
- Mr. Aseem Gill, Vice President, Yogiji Digi
- Mr. Subhankar Sen, Business Head (Lubes), Bharat Petroleum Corporation Limited

## Chief Guest

- Sh. Bhupathiraju Srinivasa Varma, Minister of State, Ministry of Steel

## Session 1 – Green Steel Production Processes - Overview and Innovations

### Speakers:

- Mr. Kondapalli Venkat – Section Head – Automotive & Yellow Goods – Technical Marketing –ArcelorMittal Nippon Steel India
- Mr. Gaurav Verma, DGM-Business Development & Branch Head, M. N. Dastur & Co. (P) Ltd
- Mr. Nitin Srivastava, Founder -Greengine Environmental Technologies Pvt Ltd
- Mr. Satyaki Dasgupta, General Manager - ECO solutions, Iron and Steel, Primetals Technologies India, Pvt. Ltd.
- Mr. Sohail Akhtar- Chief General Manager, Marketing, Bharat Petroleum Corporation Limited

## Session 2 – Market Trends and Opportunities in Green Steel Production

### Speakers:

- Sh. Ajay Yadav, Joint Secretary, MNRE&C
- Mr. Mohit Kapoor, Warehouse Association of India
- Mr. Manish Mishra, Chief of Corporate Affairs, Tata Steel Ltd
- Mr. Arvind Singh – Vice President - Sales, SPP Sulzer India

## Session 2 – Market Trends and Opportunities in Green Steel Production

### Speakers:

- Sh. Ajay Yadav, Joint Secretary, MNRE&C
- Mr. Mohit Kapoor, Warehouse Association of India
- Mr. Manish Mishra, Chief of Corporate Affairs, Tata Steel Ltd
- Mr. Arvind Singh – Vice President - Sales, SPP Sulzer India

## Session 3 – Case Study Presentations: Successful Implementation of Green Steel Projects – Overview, Challenges, Achievement & Lessons Learned

### Speakers:

- Mr. Varun Jindal, Managing Director, Dev Energy
- Mr. Naresh Lalwani, EVP and Head, Renewable Energy, JSW Steel
- Mr. Anish A. Surya, General Manager, Sales (KAM),





# International Open Seminar on **“Green Steel Production: Sustainable Practices and Carbon Reduction”** by Metalogic

**Day 2** September 28, 2024

Recap and Introduction to Day 2

**Session 1:** Future of Iron Making in the Era of Green Steel Production & Task Force for Green Steel

**Speakers:**

- Sh. Saraswati Prasad, Former Special Secretary, Ministry of Steel
- Sh. Aniruddha Kumar, Former Add. Secretary, MNRE
- Mr. Rajiv Ranjan, CGM, Business Planning Group, Steel Authority of India Ltd.

**Technical Session 1:** Decarbonization Techniques in Iron Making

**Speakers:**

- Mr. Paramjeet Singh, Add. Industrial Advisor, Ministry of Steel
- Mr. Naveen Ahlawat, Head-Power to X, Green Hydrogen, Green Steel, Gasification projects & CCSU, Jindal Steel & Power
- Mr. Atul Kumar, Director – Vertical Markets (Metals & Cement) and Key Accounts, Siemens Energy
- Mr. Praveen Chaturvedi, Sr VP & Head – Sales Upstream India, TenovaTechnologies Pvt Ltd

**Technical Session 2:** Role of Technology and Innovation in Green Iron Making

**Speakers:**

- Mr. Rajesh, Sr. Manager, Xian ShaanGu Power Co. Ltd
- Mr. Parth Kumar, Programme Manager | Industry Programme | Centre for Science and Environment



Business Meets on

# “Latest Technology for Manufacturing & Maintenance Industries”

by WMF

## Day 1 September 27, 2024

### Session 1

Topic: Role of AI and Robotics in Transforming Steel Technology

Speaker: Mr. Raj Kumar Sharma, President (All India Council for Robotics & Automation - AICRA)

### Session 2

Topic: Achieving Lubrication Reliability through IIOT in Maintenance Practices

#### Speaker:

Mr. Anshuman Agrawal, Founder & MD (Minimac Systems Pvt. Ltd.)

### Session 3

Topic: Lead Battery Recycling solutions for a sustainable future

#### Speaker:

Mr. Pradeep Jain, Director (PSR Metals Pvt. Ltd.)

### Session 4

Topic: Financing opportunities for MSME in Metal sector for domestic and export/ import transaction

#### Speaker:

Mr. Roman Volkov, Founder and MD (Metal-Market.in)



## Day 2 September 28, 2024

Opening Remarks and Welcome by Hyve India

### Session 1

Topic: How AutoCAD is helping manufacturing technologies to evolve

#### Speaker:

Mr. R. Ajithprabhakar, Specialist - Solution Sales (TD SYNEX)

### Session 2

Topic: Hand Tools Manufacturing in India & Its Global positioning

#### Speaker:

Mr. Rajesh Peshion, General Manager Marketing (Osho Tools Pvt. Ltd.)

### Session 3

Topic: Zero Mechanical Wear Machine - Magnetic Bearing Compressor - A Future with Low Maintenance

#### Speaker:

Mr. Arvind Singh, Vice President (Sulzer Pumps India Pvt.Ltd.)

### Session 4

Topic: Operational Efficiency Improvement

#### Speaker:

Mr. Kumar Kartikeya, Ex. Group Project Head (JSW Steel & Rungta MinesLtd.)



## Day 3 September 28, 2024

Opening Remarks and Welcome by Hyve India

### Session 1

Topic: Pit To Port Digitalisation Addressing Logistics, Labour or Capital - Major Challenge for the Indian Steel Industry

#### Speaker:

Mr. Mansur Farouqi, CEO and Co-Founder (Linqhaul India Pvt. Ltd.)

### Session 2

Topic: Zero Carbon Emission Vision

#### Speaker:

Mr. Raj Kumar, Joint Director (Ministry of Steel – Government of India)

### Session 3

Topic: Role of Technology in the Recycling to achieve circularity

#### Speaker:

Mr. Sujeet Samaddar, Founder and Secretary (Society for Aerospace Maritime and Defence Studies)

### Session 4


Topic: Industry 4.0 – Managing the Skill Gap & Workforce Training

#### Speaker:

Mr. Sanjay Bhardwaj, Industry & Strategy Head (Capital Goods & Strategic Skill Council)




## OVERALL SATISFACTION




69% are Satisfied with shows

## LIKELIHOOD TO RETURN NEXT YEAR




77% are likely to return for MMMM 2026 next edition.

## OVERALL RETURN ON INVESTMENT



23% exhibitors agree that exhibition delivered a better ROI for them

## NET EASY SCORE





## Special Commendation-Lubricants

- Bharat Petroleum Corporation Ltd

## Special Commendation-Gears, Motors & Gearbox

- Boneng Transmission India Pvt Ltd

## Special Commendation-Bearing & Shafts

- Eastern Bearings Pvt. Ltd.

## Special Commendation-Pumps & Valves, Quality control

- Edwards India Pvt Ltd

## Special Commendation-Induction Furnace and Heat Treatment, Steel and Steel Structures, Pipes and Tubes

- Electrotherm (India) Ltd.

## Special Commendation-Cranes, Forklift & Trucks

- Elite Steels Pvt Ltd

## Special Commendation-Refractories

- Liaoning Yuxin Hi-tech New Material Co. Ltd

## Special Commendation-Transportation and Logistics

- LinqHaul India Pvt Ltd

## Special Commendation-Quality Control

- Metal Power Analytical Pvt Ltd

## Special Commendation-Mineral Development Corporation

- NMDC Limited

## Special Commendation-Gears, Motors & Compressors

- Power Build Private Limited

## Special Commendation-Locomotives, Lubricants & Greases

- Shell India Markets Pvt Ltd

## Special Commendation-Filtration & Separation

- Sidermag India Pvt Ltd

## Special Commendation-Pumps & Valves

- Sulzer Pumps India Private Limited

## Special Commendation-Gears, Motors & Compressors

- Taier Heavy Industry Co. Ltd





# Metal, Machinery & Manufacturing Industry

## BUSINESS CARNIVAL FOR INDIA'S GROWING INDUSTRIAL SECTORS

The country's largest exhibition for the metal, machinery, manufacturing, and maintenance industries will bring together over 250 exhibitors



India has made significant strides in its engineering sector. The country exports transport equipment, capital goods, other machinery/equipment and high engineering products to different countries. Manufacturing of these machines and equipment requires a large number of nuts, screws, bolts, studs, dies, and various other fasteners. Moreover, the rising construction and infrastructure activities in the country is also driving the demand and growth of these products.

Keeping in view the increasing demand, India's largest exhibition for the metal, machinery, manufacturing, and maintenance industries will be held from September 27 to 29, 2024, at Yashobhoomi, Gurgaon, New Delhi.

The expo promises to be a key platform for showcasing new technologies, fostering business connections and discussing the future of India's booming industrial sectors.

**FOUR EXPOS UNDER ONE ROOF**

The HTF Expo will highlight the latest in hand tools, power tools, and fasteners. The CRE Expo will showcase cutting-edge technologies in cutting and welding. IMEX will feature advanced machine tools and CNC equipment, whereas UMEX will focus on economical pre-engineered machinery for industries.

The MMAM 2024 Expo has attracted top companies and industry players from around the world. Co-organized with the Indian Institute of Metals (IIM) and supported by the World Metal Forum (WMF), the event will be a hub for knowledge exchange, collaboration, and business.

Chief guest Bhupathiraju Srinivasa Varma, Minister of State for the Ministry of Steel.

Various knowledge-sharing sessions and specialized networking opportunities, including:

- An international open session on green steel production: Prominent industry figures will share their valuable insights and discuss sustainable practices and carbon reduction in this session. The session will open with an inaugural address by Huma Iqbal, Director, Ministry of Steel, followed by a keynote speech from Hagenmeyer Ravi Sankar, Joint Secretary, Ministry of Steel. V. Sharma, Vice Chairman of the Advisory Group at SSP, Sangeeta Mehra, President-MMAM and CEO of MSC Steel, Anurag Gill, Vice President at Yasho Bhoomi, and Subash Kumar, Secretary, World (Lubricants) at Bharat Petroleum Corporation Limited will also share their insights.



**Innovations in metal production:** Hosted by IMI Devis Chapter, this conference will cover the emerging developments and technologies in the metal industry.

**Exclusive steel reinforcing conference:** This also will provide a unique networking opportunity for manufacturers, CEOs, and industry leaders to discuss strategic partnerships.

**Business meets on new technologies in manufacturing and maintenance:** These sessions will focus on the latest technology for manufacturing and maintenance industries.

According to the World Steel Association, steel production accounts for 7.6 per cent of global carbon emissions, making it essential to adopt sustainable practices. The event will dive into the steps industries can take to align with global sustainability goals and the government's push towards greener production methods.

"Green steel production is not just a choice but a necessity. If India is to lead the world in sustainable industrial production, the decarbonization of steel and other heavy industries must be at the forefront of this revolution," says Gagan Sahni, director, Hye India F101.

So, don't miss out on the grand inauguration ceremony. With participation from more than 250 exhibitors and leading industry experts, this event is a must-visit for professionals from across the industry.

The exhibition is open to all trade visitors from 10 am to 6 pm on September 27-29, and 10 am to 5 pm on September 28 and 29. The entry is free for pre-registered attendees, and on-the-spot registrations will also be available at the venue.



## यशोभूमि में होगा 14वें एमएमएमएम एक्सपो का आयोजन

सवेरा न्यूज़/आकाश द्विवेदी

नई दिल्ली, 24 सितम्बर : राजधानी खनिज, धातु, धातुकर्म और सामग्री पर आयोजित होने वाले सबसे बड़े ट्रेड शो, 14वें एमएमएमएम एक्सपो की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह अंतराष्ट्रीय प्रदर्शनी 27 से 29 सितंबर तक इंडिया इंटरनैशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, यशोभूमि में आयोजित की जाएगी। यह भारत में मिनेटल्स, मेटलस, मेटलजी और मैटेरियल्स से जुड़े उद्योगों का सबसे बड़ा आयोजन होगा। हाइव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक गगन साहनी ने सोमवार को एक्सपो की तैयारियों को जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक संस्करण के साथ इस आयोजन की महत्ता बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बार भी 10 से अधिक देशों के 300 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा लेंगे, जबकि 12 हजार से अधिक खरीदार दक्षिण एशिया से यहां पहुंचेंगे।

## यशोभूमि में होगा 14वें एमएमएमएम एक्सपो का आयोजन

**हाइव टाइम्स संवाददाता**

**नई दिल्ली:** राजधानी नई दिल्ली खनिज, धातु, धातुकर्म और सामग्री पर आयोजित होने वाले सबसे बड़े ट्रेड शो, 14वें एमएमएमएम एक्सपो की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह अंतराष्ट्रीय प्रदर्शनी 27 से 29 सितंबर, 2024 तक इंडिया इंटरनैशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, यशोभूमि में आयोजित की जाएगी। यह भारत में मिनेटल्स, मेटलस, मेटलजी और मैटेरियल्स से जुड़े उद्योगों का सबसे बड़ा आयोजन होगा। हाइव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक गगन साहनी ने सोमवार को एक्सपो की तैयारियों को जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक संस्करण के साथ इस आयोजन की महत्ता बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बार भी 10 से अधिक देशों के 300 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा लेंगे, जबकि 12 हजार से अधिक खरीदार दक्षिण एशिया से यहां पहुंचेंगे। साहनी ने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटलस-दिल्ली सेंटर और

हाईव टाइम्स संवाददाता

**नई दिल्ली:** राजधानी नई दिल्ली खनिज, धातु, धातुकर्म और सामग्री पर आयोजित होने वाले सबसे बड़े ट्रेड शो, 14वें एमएमएमएम एक्सपो की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह अंतराष्ट्रीय प्रदर्शनी 27 से 29 सितंबर, 2024 तक इंडिया इंटरनैशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, यशोभूमि में आयोजित की जाएगी। यह भारत में मिनेटल्स, मेटलस, मेटलजी और मैटेरियल्स से जुड़े उद्योगों का सबसे बड़ा आयोजन होगा। हाइव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक गगन साहनी ने सोमवार को एक्सपो की तैयारियों को जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक संस्करण के साथ इस आयोजन की महत्ता बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बार भी 10 से अधिक देशों के 300 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा लेंगे, जबकि 12 हजार से अधिक खरीदार दक्षिण एशिया से यहां पहुंचेंगे। साहनी ने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटलस-दिल्ली सेंटर और

# Metal, Machinery & Manufacturing Industry

## Final Day of India's Largest Industrial Exhibition: Celebrating Achievements and Looking Ahead

Yashobhoomi, Gurgaon— As we reach the final day of India's Largest Exhibition for Metal, Machinery, Manufacturing, and Maintenance, held from September 27-29, it's time to reflect on the remarkable journey we've experienced over the past few days. This event has successfully showcased seven key expos centered on Metal, Machinery, Manufacturing, and Maintenance, attracting thousands of industry professionals eager to explore innovations and foster valuable connections.

The event began with a grand inauguration ceremony, officiated by the distinguished Chief Guest, Sh. Bhupathiraju Srinivasa Varma, Hon'ble Minister of State for Steel, Government of India. His presence marked the start of a highly dynamic and impactful gathering, setting the tone for an extraordinary showcase of industry advancements and opportunities.

As we enter the final day of India's Largest Industrial Exhibition at Yashobhoomi, Gurgaon, the synergy of six major expos has created an unparalleled platform for the metal, engineering, manufacturing, and machine tools industries.

This amalgamation includes HTF for Advanced Hand Tools, Power Tools, and Fasteners;

CWE, which highlights Advanced Cutting and Welding Equipment & Technology, including Laser Technology; IMEX for the latest in Machine Tools such as CNC, Laser, Shot Blasting, and Measuring & Testing Equipment; UMEX, focused on Economical Pre-engineered Machinery; TECHNIDA, showcasing Engineering and Manufacturing solutions like Pumps, Valves, and Compressors; and MMAM, the largest and most prestigious event on Minerals, Metals, Metallurgy & Materials.

As we conclude India's opportunities, formed new partnerships, and driven significant deals that will fuel growth in the months to come. Largest Industrial Exhibition today, the final day promises impactful sessions that will provide valuable insights into the metal, machinery, and manufacturing sectors. A key highlight is the Metal Industry & Investor Meet, bringing together industry leaders and investors to explore new opportunities, investments, and sustainable practices.



the final day a fitting conclusion to this successful event.

The networking opportunities have proven invaluable, with many exhibitors and visitors forming collaborations that promise to drive innovation and growth within the industry. As we conclude this event, we encourage all attendees to take advantage of the last chance to connect with peers, share ideas, and explore potential partnerships.

The exhibition floor is still open, featuring over 250+ leading exhibitors showcasing their latest products and technologies. This is a final opportunity for visitors to engage directly with manufacturers and suppliers, gaining firsthand knowledge of solutions that can enhance their operations.

As we look forward to future events, the success of this exhibition reinforces the importance of collaboration and innovation in driving the industry forward. We thank all exhibitors, speakers, and attendees for their active participation and enthusiasm throughout the event.

Join us as we close out this extraordinary exhibition. The exhibition is open to all trade visitors from 10 AM to 4 PM on 29 September each day. Entry is free for pre-registered attendees, and on-the-spot registrations will also be available at the venue. Please note that children under 18 years and infants in arms are not permitted in the exhibition hall. Event Location: Yashobhoomi (ICC), Gurgaon, New Delhi



Together, these expos have formed an extended platform that showcases the strength, innovation, and expertise of both the Indian and international manufacturing and technology sectors. Over the last few days, exhibitors and visitors alike have seized



driving growth in the metal industry.

As the exhibition wraps up, participants can take advantage of our last sessions to gain actionable strategies, strengthen networks, and explore business opportunities, making

Join

**WMEF**

WORLD METAL FORUM

A Step Forward the Industry

www.worldmetalforum.org

## यशोभूमि में होगा 14वें एमएमएमएम एक्सपो का आयोजन

**गुगुनिय ट्रेड, नई दिल्ली**

राजधानी नई दिल्ली खनिज, धातु, धातुकर्म और सामग्री पर आयोजित होने वाले सबसे बड़े ट्रेड शो, 14वें एमएमएमएम एक्सपो की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह अंतराष्ट्रीय प्रदर्शनी 27 से 29 सितंबर, 2024 तक इंडिया इंटरनैशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, यशोभूमि में आयोजित की जाएगी। यह भारत में मिनेटल्स, मेटलस, मेटलजी और मैटेरियल्स से जुड़े उद्योगों का सबसे बड़ा आयोजन होगा। हाइव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक गगन साहनी ने सोमवार को एक्सपो की तैयारियों को जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक संस्करण के साथ इस आयोजन की महत्ता बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बार भी 10 से अधिक देशों के 300 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा लेंगे, जबकि 12 हजार से अधिक खरीदार दक्षिण एशिया से यहां पहुंचेंगे। साहनी ने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटलस-दिल्ली सेंटर और

## यशोभूमि में होगा 14वें एमएमएमएम एक्सपो का आयोजन

**नई दिल्ली 24 सितम्बर (एएसएस):** राजधानी नई दिल्ली खनिज, धातु, धातुकर्म और सामग्री पर आयोजित होने वाले सबसे बड़े ट्रेड शो, 14वें एमएमएमएम एक्सपो की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह अंतराष्ट्रीय प्रदर्शनी 27 से 29 सितंबर, 2024 तक इंडिया इंटरनैशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, यशोभूमि में आयोजित की जाएगी। यह भारत में मिनेटल्स, मेटलस, मेटलजी और मैटेरियल्स से जुड़े उद्योगों का सबसे बड़ा आयोजन होगा। हाइव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक गगन साहनी ने सोमवार को एक्सपो की तैयारियों को जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक संस्करण के साथ इस आयोजन की महत्ता बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बार भी 10 से अधिक देशों के 300 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा लेंगे, जबकि 12 हजार से अधिक खरीदार दक्षिण एशिया से यहां पहुंचेंगे। साहनी ने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटलस-दिल्ली सेंटर और



# Metal, Machinery & Manufacturing Industry

\*HINDUSTAN TIMES MEDIA MARKETING INITIATIVE

## The Grand Launch of India's Premier Manufacturing and Metal Industrial Exhibition at Yashobhoomi, Dwarka

### A Grand Showcase for Metal, Machinery, Manufacturing, and Maintenance

On September 27, 2024 The long-awaited and highly anticipated exhibition for the Metal, Machinery, Manufacturing, and Maintenance industries has finally opened its doors today at Yashobhoomi, Dwarka, New Delhi. In what promises to be a landmark event for the industry, organized by Hyve India, this event is set to be a veritable showcase of innovation, featuring over 250 top exhibitors attracting more than 12,000 visitors from across the country and around the globe. Industry professionals, leaders, innovators are converging to witness the latest cutting-edge technologies and solutions driving the future of metal, machinery, manufacturing, and maintenance. The event will feature six major segments: HTF for Advanced Tools, Power Tools, and Pneumatics; CWE for Advanced Cutting and Welding Equipment & Technology, including Laser Technology; IMEX for the Latest Machine Tools (CNC, Laser, Shot Blasting, Measuring & Testing Equipment, and more); UMEX for Industrial Pre-owned Machinery & Equipment; TECHINDIA for Engineering and Manufacturing Equipment (Pumps, Valves, Compressors, and more) along with MIMMM, the largest and most prestigious event for Minerals, Metals, Metallurgy & Materials.

MMMM 2024 is supported by the Ministries of Steel, Coal, Electronic & Information Technology, Commerce & Industry, Government of India and honored to have the Hon'ble Minister of Steel, Government of India, invited to formally inaugurate the event, alongside the former Secretary of the Ministry of Steel and leaders from the steel and allied industries. This series of expos serves as a comprehensive platform for the metal, engineering, manufacturing, and machine tools



sectors, showcasing the innovation and strength of both Indian and international manufacturing and technology industries. The event will commence with an inauguration ceremony, led by our esteemed Chief Guest, Sh.

Bhupathiraju Srinivasa Varma, Hon'ble Minister of State for the Ministry of Steel, Govt. of India marking the beginning of a dynamic and impactful gathering. Attendees will experience a wealth of activities, including: An International Open Seminar On Green Steel Production: Sustainable Practices and Carbon Reduction powered by Metalogic, where we anticipate valuable insights from prominent industry figures. The session will open with an inaugural address by Mr.

Neha Verma, IFS, Director, Ministry of Steel, followed by a keynote speech from Sh. Nagendra Nath Sinha, Former Secretary, Ministry of Steel. We have invitees such as Mr. SS Mohanty, CEO & MD, Essar

Minmet & Former President of The Indian Institute of Metals, Mr. VR Sharma, Vice Chairman of the Advisory Group at JSP, Mr. Subhankar Sen, Business Head (Lubes) at Bharat Petroleum Corporation Limited, Mr. Sanjay Mehta, President - MR&I and MD of MTC Steel, Mr. Aseem Gill, Vice President at Yogi Digi, and, to share their insights International Conference on Process & Product Innovations in Metal Production Hosted by the IIM Delhi Chapter, this conference will cover the emerging developments and technologies in the metal industry. Exclusive Steel Manufacturers Networking Pavilion: This area will provide a unique

networking opportunity for manufacturers, CEOs, and industry leaders to discuss strategic partnerships. Business Meets on New Technologies in Manufacturing and Maintenance: These sessions will focus LATEST TECHNOLOGY FOR MANUFACTURING & MAINTENANCE INDUSTRIES. As the exhibition progresses, tomorrow's agenda features even more engaging sessions. Participants can expect in-depth discussions on innovations, including the Future of Iron Making in the Era of Green Steel Production, the Task Force for Green Steel, and



Decarbonization Techniques in Iron Making. Additionally, the focus on sustainability will continue, providing valuable insights on aligning with global sustainability goals. The exhibition is open to all trade visitors from 10 AM to 6 PM on 27-28 September and 10 AM to 4 PM

on 29 September each day. Ent free for pre-registered attendees and on-the-spot registrations are also available at the venue. Please note that children under years and infants in arms are not permitted in the exhibition hall. Event Location: Yashobhoomi (IICC), Dwarka, New Delhi

दैनिक भास्कर

विधि

समाचार के लिए देश भर से खबरें सुने के लिए खबरें सुने के लिए

## यशोभूमि में होगा 14वें एमएमएमएम एक्सपो का आयोजन

### आयोजक लगातार सेवा

नई दिल्ली। राजधानी नई दिल्ली खनिज, धातु, धातुकर्म और सामग्री पर आयोजित होने वाले सबसे बड़े ट्रेड शो, 14वें एमएमएमएम एक्सपो की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी 27 से 29 सितंबर, 2024 तक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, यशोभूमि में आयोजित की जाएगी। यह भारत में मिनेटल्स, मेटल्स, मेटलजी और मैटेरियल्स से जुड़े उद्योगों का सबसे बड़ा आयोजन होगा। हाइव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक गगन साहनी ने सोमवार को एक्सपो की तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक संस्करण के

साथ इस आयोजन की महत्ता बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बार भी 10 से अधिक देशों के 300 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा लेंगे, जबकि 12 हजार से अधिक खरीदार दक्षिण एशिया से यहां पहुंचेंगे। साहनी ने कहा कि 2023 के वित्तीय वर्ष में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में 4.7% की वृद्धि हुई, जिसका श्रेय विमानन, भारी इंजीनियरिंग, मोटर वाहन, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हुई व्यापक प्रगति को जाता है। इस एक्सपो से उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ संवाद करने का सुनहरा अवसर मिलेगा, जो इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा।

## यशोभूमि में होगा 14वें एमएमएमएम एक्सपो का आयोजन

अमर भारती संवाददाता नई दिल्ली। खनिज, धातु, धातुकर्म और सामग्री पर आयोजित होने वाले सबसे बड़े ट्रेड शो, 14वें एमएमएमएम एक्सपो की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी 27 से 29 सितंबर, 2024 तक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, यशोभूमि में आयोजित की जाएगी। यह भारत में मिनेटल्स, मेटल्स, मेटलजी और मैटेरियल्स से जुड़े उद्योगों का सबसे बड़ा आयोजन होगा। हाइव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक गगन साहनी ने सोमवार को एक्सपो की तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक संस्करण के साथ इस आयोजन की महत्ता बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बार भी 10 से अधिक देशों के 300 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा लेंगे, जबकि 12 हजार से अधिक खरीदार दक्षिण एशिया से यहां पहुंचेंगे। साहनी ने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स-दिल्ली चैटर और वर्ल्ड मेटल फोरम के सहयोग से किया जा रहा है।



# इनोवेशन का शानदार प्रदर्शन

27-29 सितंबर तक द्वारका के यशोभूमि में देश की सबसे बड़ी मेटल, मशीनरी, मैनुफैक्चरिंग और मेनटेनेंस इंडस्ट्री से संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को नेटवर्किंग करने का बेहतरीन मौका मिल रहा है

Resp.Edit@timgroup.com

भारत ने अपने इंडीनिटीय सेक्टर में महत्वपूर्ण प्रगति की है। देश विभिन्न देशों को टॉपसेट इक्विपमेंट, पैरिफरल टूलिंग, अन्य मशीनरी, इक्विपमेंट और इनके इंडीनिटीय उपकरणों का निर्यात करता है। इन मशीनों और उपकरणों के निर्यात के लिए गरी संस्था में यह, सह, केनर, एन, सिविल और विभिन्न अन्य संस्थाओं की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, देश में बहुत विभिन्न और बुनियादी ढांचे से जुड़ी यशोभूमि भी इन उपकरणों को मांग और बढ़ी को बढ़ावा दे रही है।



सहरी डिमांड को ध्यान में रखते हुए, एनए सीएम ने मेटल, मशीनरी, मैनुफैक्चरिंग और मेनटेनेंस इंडस्ट्रीय के लिए एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया है। मनुप्रौद्योगिकी उद्यम प्रदर्शनी का शुभारंभ यशोभूमि, द्वारका, नई दिल्ली में शुरू हुआ था, जो इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन रहा। उद्घाटन पर इस प्रदर्शनी का भारतीय सबसे अधिक से अधिक रहा। इस दौरान यहां का जोड़ित भारतीय उद्योग से यह का (प्रदर्शक और आमंत्रित इन्वेन्शन को खोज करने और उद्योग जगत से जुड़े इन्वेन्शन से नेटवर्किंग करने के लिए एक साथ आए।

आज के दुनिया में अग्रणी स्थिति में औद्योगिकीकरण करने के लिए एक प्रमुख स्थान पर शामिल है। इनके प्रदर्शक बन करने के लिए वैश्विक प्रदर्शनी में बेहो के साथ, अग्रणी-सिद्धि प्रक्रिया में औद्योगिकीकरण इस करने के पीछे के तरीकों को समझ करनी है। विभिन्न तकनीकी प्रगति और नए तरीकों के लिए उद्योगी जनजाती सख्त कर रहे हैं, जो पूरे क्षेत्र में निर्यात को बढ़ा देने में मदद कर सकते हैं।

सब से, देश का उद्योग ने इन्वेन्शन पर प्रकाश की उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें तीन स्टेशन उपकरण के रूप में तीन निर्यात का निर्यात और तीन स्टेशन के लिए टास्क सेटों की परत रही पलट जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल है।

**यह आयोजन इनोवेशन का केंद्र है, जिसमें 250 से अधिक टॉप एंजीनियर्स हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही, देश-विदेश से 12,000 से अधिक ट्रेड एंजीनियर्स इसमें शामिल हो रहे हैं**

मेटल, मेटल सॉल्ट्स और मशीनरीय पर देश का सबसे बड़ा व प्रसिद्ध कार्यक्रम बन रहा है।

एकमात्र को यह अग्रणी मेटल, इंडीनिटीय, मैनुफैक्चरिंग और मशीन टूलिंग सेक्टर के लिए एक व्यवसाय में के रूप में कार्य करती है, जो भारतीय और अंतरराष्ट्रीय मैनुफैक्चरिंग व प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीय के इन्वेन्शन व इसकी जानकारी को दर्शाती है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री धर्मेन्द्राज श्रीनिवास वर्मा के नेतृत्व में उद्घाटन समारोह के साथ इसकी शुभारंभ हुई।

कार्यक्रम में एग्जीक्यूटिव लीगों को विभिन्न नौकर-नौकरी योजना और असीमित नेटवर्किंग अवसरों का अनुभव मिला, जिनमें शामिल है:

**मेटल उद्योग में प्रगति और उद्योग इन्वेन्शन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन:** आईआईएम दिल्ली चेंबर द्वारा अर्जेंटीन इस सम्मेलन में मेटल इंडस्ट्री ने अपने निर्यात और प्रोसेसिंग को शामिल किया गया।

**विशेष रूप से निर्यात नेटवर्किंग सत्र:** यह मेटल निर्यात, मीटिंग और इंडस्ट्री के प्रमुख प्रतिनिधियों के लिए एक अग्रणी नेटवर्किंग अवसर प्रदान किया।

**निर्यात और मेनटेनेंस में नई टेक्नोलॉजी पर विचारणा सत्र:** यह मैनुफैक्चरिंग और मेनटेनेंस इंडस्ट्रीय के लिए नई टेक्नोलॉजी पर अग्रणी प्रदर्शनी का पहला सत्र था।

**जैसे-जैसे प्रदर्शनी आगे बढ़ी, यह हमारे में अन्य सत्र लोगों के लिए अग्रणी के लिए प्रगति हो रहा है।**

## यशोभूमि में होगा 14वें एमएमएमएम एक्सपो का आयोजन

गुडगांव टुडे, नई दिल्ली

राजधानी नई दिल्ली खनिज, धातु, धातुकर्म और सामग्री पर आयोजित होने वाले सबसे बड़े ट्रेड शो, 14वें एमएमएमएम एक्सपो को मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी 27 से 29 सितंबर, 2024 तक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, यशोभूमि में आयोजित की जाएगी। यह भारत में मिनरल्स, मेटल्स, मेटलजी और मीटेरियल्स से जुड़े उद्योगों का सबसे बड़ा आयोजन होगा।

हाइव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक गगन साहनी ने सोमवार को एक्सपो की तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि

प्रत्येक संस्करण के साथ इस आयोजन की महत्ता बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बार भी 10 से अधिक देशों के 300 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा लेंगे, जबकि 12 हजार से अधिक खरीदार दक्षिण एशिया से यहां पहुंचेंगे।

साहनी ने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स-दिल्ली चेंबर और वर्ल्ड मेटल फोरम के सहयोग से किया जा रहा है। इसके 2024 संस्करण में चीन, यूरोपीय देशों और रूस के लिए अलग-अलग परेवेलियन बनाए जाएंगे, जो व्यापार और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देंगे। एमएमएमएम 2024 एक्सपो में विभिन्न संयुक्त उद्यम, साझेदारियां, निवेश और

तकनीकी आदान-प्रदान से देश में खनिज, धातु और सामग्री उद्योगों की प्रगति को बल मिलेगा। यह अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी न केवल व्यापार को आगे बढ़ाने का मौका देगी बल्कि सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी और नवाचार में नए अवसर भी प्रदान करेगी। साहनी ने कहा कि 2023 के वित्तीय वर्ष में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका श्रेय विमानन, भारी इंजीनियरिंग, मोटर वाहन, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हुई व्यापक प्रगति को जाता है। इस एक्सपो से उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ संवाद करने का सुनहरा अवसर मिलेगा, जो इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा।

04 गुडगांव टुडे, गुडगांव, नई दिल्ली

## यशोभूमि में होगा 14वें एमएमएमएम एक्सपो का आयोजन

गुडगांव टुडे, नई दिल्ली

राजधानी नई दिल्ली खनिज, धातु, धातुकर्म और सामग्री पर आयोजित होने वाले सबसे बड़े ट्रेड शो, 14वें एमएमएमएम एक्सपो को मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी 27 से 29 सितंबर, 2024 तक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, यशोभूमि में आयोजित की जाएगी। यह भारत में मिनरल्स, मेटल्स, मेटलजी और मीटेरियल्स से जुड़े उद्योगों का सबसे बड़ा आयोजन होगा।

प्रत्येक संस्करण के साथ इस आयोजन की महत्ता बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बार भी 10 से अधिक देशों के 300 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा लेंगे, जबकि 12 हजार से अधिक खरीदार दक्षिण एशिया से यहां पहुंचेंगे।

साहनी ने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स-दिल्ली चेंबर और वर्ल्ड मेटल फोरम के सहयोग से किया जा रहा है। इसके 2024 संस्करण में चीन, यूरोपीय देशों और रूस के लिए अलग-अलग परेवेलियन बनाए जाएंगे, जो व्यापार और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देंगे। एमएमएमएम 2024 एक्सपो में विभिन्न संयुक्त उद्यम, साझेदारियां, निवेश और

हाइव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक गगन साहनी ने सोमवार को एक्सपो की तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि



**"We are participating for the first time, and the overall experience with the organizing team has been smooth"**

*Mansoor Ali Farooqi founder of linqhaul*

**"It was an overall good experience. This is a great platform to meet dealers and visitors from different nationalities. We are glad to be a part of this exhibition"**

*Team Electrotherm*

**"The arrangement the overall experience was good and satisfactory"**

*Nedim - Liaoning Yuxin Hi-tech New Material Co. Ltd*

**"We have exhibited in MMMM at different locations, and this is our first time in Delhi. The experience has been very good; we are gaining excellent exposure here and attracting clients from across India"**

*Nirav Vakriya Radicon Power Build Private Limited*

**"The experience has been great. We can see diversified vendors, and it's a good environment here."**

*Team Sulzer:*







**MINERALS  
METALS  
METALLURGY  
MATERIALS**

www.mmm-expo.com

**15<sup>th</sup>** International Exhibition & Conference on  
Minerals, Metals, Metallurgy & Materials

**September 2026**  
**Delhi NCR, INDIA**

### A sneak preview

- Support from major Ministries, trade associations of metal and allied industries.
- Presence of over 400 leading Exhibitors from 11+ countries
- International Participation from China, Austria, Finland, France, Germany, Italy, Russia, Spain, UK & USA.
- A high level International conference
- Concurrent Global Meet of World Metal Forum.
- International Business Networking Program (IBNP).
- Industry Excellence Awards.
- Investor Meet by International Chambers of Commerce.
- Various New Launches by exhibitors.
- International Trade Delegations from 7+ Countries.



SUPPORTED BY

**WMF**  
WORLD METAL FORUM

### CO-LOCATED SHOWS

**CWE**<sup>TM</sup>  
CUTTING AND WELDING EQUIPMENT EXPO  
International Exhibition on  
Cutting, Welding Materials &  
Equipment and Laser Technologies

**INEX**<sup>TM</sup>  
MACHINE TOOLS EXPO  
International Exhibition on  
Latest Machine Tools & Allied Products

**UNEX**<sup>TM</sup>  
USED MACHINERY EXPO  
Asia's Largest  
Pre-owned Machinery Expo

**TECHINDIA**<sup>TM</sup>  
ENGINEERING AND MANUFACTURING EXPO  
International Exhibition on  
Factory Automation, Motion & Drives,  
Pumps, Valves & Compressors and Robotics

**HAND TOOLS  
EXPO**<sup>TM</sup>  
India's Largest Hand Tools Expo

**FASTENER  
EXPO**<sup>TM</sup>  
India's Largest Fastener Expo



A Step **For**ward  
the Industry

# Unlimited Opportunities

## As an **Exhibitor**

- Display your latest array of products, technology and services to highly focused trade visitors, trade media and delegates
- One to one interaction with the industry at one location
- Brand building among industry and end users
- Explore new business and investment opportunities

## As a **Sponsor**

- Benefit from an ideal time, place and opportunity to get noticed
- Stand out from the crowd
- Enhance your leadership status
- Project a long lasting brand image to a targeted audience

## As a **Visitor**

- Access to the latest technology, products and services available in the market
- Find availability of raw materials, alternate suppliers, recent trends in the manufacturing and trading segments
- Find about sources of investments & funding
- Find professionals & skilled manpower

and **MUCH MORE** to **Explore...**





## Hyve India Pvt Ltd

We deliver game-changing impact for people, business and beyond. How? By helping people to make the connections that could change everything, through its portfolio of unmissable events and hyper-productive meetings programmes. Hyve is on a mission to redefine everyone's expectations of events and is using cutting-edge technology and data to amplify their transformative potential. Hyve's portfolio includes world-renowned brands such as Shoptalk, Bett, CWIEME and Fintech Meetup.

We work across various industry sectors including, Engineering, Metal, Machinery, Paper, Packaging, Pro Sound & Light Roofing, Tools, Tissue and more across India & beyond.

## Contact Us

### New Delhi

#### Hyve India Private Limited

(CIN. U92490DL2004PTC124343)

503, 5th Floor, Mercantile House, 15, KG Marg,  
Connaught Place, New Delhi-110001, INDIA

Email: [mmmm@hyve.group](mailto:mmmm@hyve.group), Tel: +91 11-23317591

Website: [india.hyve.group](http://india.hyve.group), [www.hyve.group](http://www.hyve.group)

### Chennai Office

#### Hyve India Private Limited

Workflo by OYO, Greeta Towers 99

Industrial Estate Perungudi Phase 1

Old Mahabalipuram Road

Chennai, Tamil Nadu – 600096, INDIA